



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 232]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 24, 2017/चैत्र 3, 1939

No. 232]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 24, 2017/CHAITRA 3, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2017

सं. 10/2017- सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 291(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित 1,1,1,2-टेट्राफ्लूरोएथेन या आर-134ए (एतश्मिनपश्चात जिसे विषयगत पदार्थ से संदर्भित किया गया है) जो सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2903 39 19 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के बारे में नामित प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/23/2014-डीजीएडी दिनांक 30 मई, 2016 जिसे 30 मई, 2016, को भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड-1 में प्रकाशित किया था, में अपने अंतिम निष्कर्षों के माध्यम से निम्नलिखित निर्णय पर पहुंचे हैं कि—

- विषयगत देश से विषयगत पदार्थों की लगातार भरमार हो रही थी।
- इनके आयात से घरेलू उद्योग की कीमतें काफी कम हो रही थी और घरेलू कीमतों में मंदी आ गई थी।
- घरेलू उद्योग की वित्तीय काम-काज गड़बड़ा गया था और विषयगत देश से हो रहे भारी आयात से घरेलू उद्योग को लगातार नुकसान हो रहा था।
- विषयगत देश से होने वाले विषयगत पदार्थों की भरमार के जारी रहने की संभावना थी यदि चालू प्रतिपाटन शुल्क को खत्म कर दिया जाता तो

और उन्होंने विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित इन विषयगत पदार्थों के आयात पर निश्चयात्मक परिपाटन शुल्क को लगे रहने देने के लिए सिफारिश की थी।

और जहां के नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.30/2016-सीमाशुल्क (एडीडी) दिनांक 11 जुलाई, 2016, जिसे सा.का.नि.675(अ) दिनांक 11 जुलाई, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से विषयगत पदार्थों पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जहां कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोडक्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) ने उनके द्वारा किए गए विषयगत पदार्थों के निर्यात के बारे में सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 की दृष्टि से पुनः विचार करने के लिए अनुरोध किया था और नामित प्राधिकारी ने अपने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना सं. 15/22/2016-डीजीएडी दिनांक 27 फरवरी, 2017, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग I, खंड 1 में दिनांक 27 फरवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा न हो जाए उपर्युक्त पार्टियों के द्वारा किए जाने वाले विषयगत पदार्थों के सभी आयात का अनंतिम आकलन किया जाए।

अतः अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, आकलन और उनपर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति-निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार नामित प्राधिकारियों की उपर्युक्त सिफारिश पर विचार करने के पश्चात एतद्वारा आदेश देती है कि जब तक नामित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के परिणाम विचाराधीन रहते हैं तब तक विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित विषयगत पदार्थों, जो कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोडक्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) के द्वारा उत्पादित या निर्यातित किए गए हों के भारत में आयात का तब तक अनंतिम आकलन किया जाता रहेगा जब तक कि इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है।

2. यदि भुगतान में कोई कमी रह गई हो तो उस स्थिति में या यदि निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क भूतलक्षी प्रभाव से लगाया जाता है तो नामित प्राधिकारी के जांच-कार्य के पूरा होने पर यह अनंतिम आकलन उस सुरक्षा और प्रतिभूति के अधीन रहेगा जिसे सीमाशुल्क का यथोचित अधिकारी उचित समझे।

3. नामित प्राधिकारी के उक्त समीक्षा के पूरा होने के पश्चात प्रतिपाटन शुल्क की सिफारिश की जाती है तो आयातकर्ता उस प्रतिपाटन शुल्क की राशि का भुगतान करेगा जिसकी इस समीक्षा में सिफारिश की गई हो और विषयगत देश में मूलतः उत्पादित और वहां से निर्यातित, जो कि मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक या निर्यातक), मैसर्स झेजियांग सेनमेई केमिकल प्रोडक्ट्स को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (निर्यातक) और मैसर्स जियांगसू सेनमेई केमिकल इंडिया को. लिमि., चीन जनवादी गणराज्य (उत्पादक) द्वारा उत्पादित या निर्यातित किए गए हों, के भारत में आयात पर उक्त समीक्षा के प्रारंभ के तिथि से लगाया गया हो।

[फा. सं. 354/24/2010-टीआरयू (पार्ट-3)]

अनुराग सहगल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th March, 2017

No. 10/2017-Customs (ADD)

G.S.R. 291(E).—Whereas, in the matter of import of 1,1,1,2-Tetrafluoroethane or R-134a (hereinafter referred to as the subject goods), falling under the tariff item 2903 39 19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), originating in or exported from People's Republic of China (hereinafter referred to as the subject country), the designated authority, *vide* its final findings in notification No.15/23/2014-DGAD, dated the 30th May, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 30th May, 2016, had come to the conclusion that —

- (i) there was continued dumping of the subject goods from the subject country;
- (ii) imports were significantly undercutting the prices of the domestic industry and were depressing the domestic prices;
- (iii) the financial performance of the domestic industry had deteriorated and the dumped imports from the subject country continued to cause injury to the domestic industry;
- (iv) dumping of the subject goods from the subject country was likely to continue if the current anti-dumping duty ceased,

and had recommended continued imposition of definitive anti-dumping duty on imports of the subject goods originating in, or exported from, the subject country.

And whereas, on the basis of the aforesaid findings of the designated authority, the Central Government had imposed an anti-dumping duty on the subject goods, *vide*, notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.30/2016-Customs (ADD), dated the 11th July, 2016, published vide number G.S.R. 675(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), dated the 11th July, 2016;

And whereas, M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., People's Republic of China (Producer or Exporter), M/s Zhejiang Sanmei Chemical Products Co., Ltd, People's Republic of China (Exporter) and M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd, People's Republic of China (Producer) have requested for review in terms of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, in respect of exports of the subject goods made by them, and the designated authority, *vide* new shipper review notification No.15/22/2016-DGAD, dated 27th February, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th February, 2017, has recommended provisional assessment of all exports of the subject goods made by the above stated parties till the completion of the review by it;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 22 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid recommendation of the designated authority, hereby orders that pending the outcome of the said review by the designated authority, the subject goods, when originating in or exported from the subject country by M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., People's Republic of China (Producer or Exporter), M/s Zhejiang Sanmei Chemical Products Co., Ltd, People's Republic of China (Exporter) and M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd, People's Republic of China (Producer) and imported into India, shall be subjected to provisional assessment till the review is completed.

2. The provisional assessment may be subject to such security or guarantee as the proper officer of customs deems fit for payment of the deficiency, if any, in case a definitive anti- dumping duty is imposed retrospectively, on completion of investigation by the designated authority.

3. In case of recommendation of anti-dumping duty after completion of the said review by the designated authority, the importer shall be liable to pay the amount of such anti-dumping duty recommended on review and imposed on all imports of subject goods when originating in or exported from the subject country by M/s. Zhejiang Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd., People's Republic of China (Producer or Exporter), M/s Zhejiang Sanmei Chemical Products Co., Ltd, People's Republic of China (Exporter) and M/s Jiangsu Sanmei Chemical Ind. Co., Ltd, People's Republic of China (Producer) and imported into India, from the date of initiation of the said review.

[F. No. 354/24/2010-TRU (Pt.-3)]

ANURAG SEHGAL, Under Secy.